



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 328] मई दिल्ली, शनिवार, जुलाई 23, 1977 श्रावण 1, 1899

No. 328] NEW DELHI, SATURDAY, JULY 23, 1977/SHRAVANA 1, 1899

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed
as a separate compilation

MINISTRY OF COMMERCE

(Office of the Jute Commissioner)

NOTIFICATIONS

Calcutta, the 23rd July 1977

S.O. 582(E).—In exercise of the powers conferred by Clause 11 of the Jute (Licensing & Control) Order, 1961 I, S K Palit, Jute Commissioner, hereby direct that the powers vested in me by sub-clauses (a), (b) and (c) of clause 11 of the above Order shall be exercised also by the following officials of the Govt. of West Bengal until further orders :—

1. Superintendent of Agricultural Marketing (Grading and Marketing of Jute) West Bengal.
2. District Agricultural Marketing Officers.
3. Sub-Divisional Agricultural Marketing Officers.

Explanation.—Each of the above officials shall exercise the said powers within the respective territorial jurisdictions as notified by the Government of West Bengal

[No. 8/1/74-Jute]

S. K PALIT, Jute Commissioner

बाणिज्य मंत्रालय

(पटसन आयुक्त का कार्यालय)

अधिसूचना

कलकत्ता, 23 जुलाई, 1977

का० प्रा० 582(अ).—पटसन (अनुशासन और नियंत्रण) आदेश, 1961 के खण्ड 11 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं, एस० के० पालित, पटसन आयुक्त निदेश देता हूँ कि उपर्युक्त आदेश के खण्ड 11 के उपखण्ड (क), (ख) और (ग) द्वारा भुक्त में निहित शक्तियों का प्रयोग आगे आदेश होने तक, पश्चिम बंग सरकार के निम्नलिखित पदधारी भी करेंगे —

1. कृषि विपणन अधीक्षक (जूट क्रम-बन्धन एवं विपणन) पश्चिम बंगाल ।
2. जिला कृषि विपणन अधिकारी ।
3. अनुमण्डल कृषि विपणन अधिकारी ।

स्पष्टीकरण.—उपर्युक्त पदधारियों में से प्रत्येक पदधारी पश्चिम बंग सरकार द्वारा यथा अधिसूचित अपनी-अपनी क्षेत्रीय अधिकारिता के भीतर उक्त शक्तियों का प्रयोग करेगा ।

[स० 8/1/74-पटसन]

एस० के० पालित, पटसन आयुक्त ।